

कक्षा - 5वीं

खुलते पंख - पाठ 1 से 3

व्याकरण - दीपिका - पाठ 1 से 4

खंड (क) अवबोध

प्र. (1) नीचे लिखे पद्यांश को ध्यान से पढ़ कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए-

रवि -सा चलाना, हिम सा गलना,

हम सब को दीपक - सा जलना ,

गीतों से दुनिया को भरने ,

मोर , पपीहा , भेक बनेंगे,

एक बनेंगे, नेक बनेंगे !

अपनी जननी विश्व भारती

लो, मिल-जुल कर करें आरती,

एक नया संसार बसाने

भाई हम प्रत्येक बनेंगे !

(क) "हिम सा गलना" का अर्थ है-

(i) खराब होना (II) बर्फ सा पिघलाना (III) बहना (IV) हिमालय का गलना

(ख) बच्चे क्या बसाने की बात कर रहे हैं ?

(I) नया संसार (II) अपना घर (III) परिवार (IV) मोहल्ला

(ग) नीचे दिए गए शब्दों के विलोम पद्यांश में से छाँट कर लिखो -

रुकना पराई

(घ) यह पद्यांश कौन सी कविता में से लिया गया है ?

(1) नेक बनेंगे (2) भाई बनेंगे (3) एक बनेंगे नेक बनेंगे (4) दोस्त बनेंगे

(ङ) बच्चे विश्व-भारती की क्या करना चाहते हैं ?

(1) प्रार्थना (2) आरती (3) पूजा (4) रक्षा

प्र. (2) नीचे लिखे गद्यांश को पढ़ कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दो-

पांचाल के राजा द्रुपद थे । उनकी पुत्री का नाम द्रौपदी था । उसके रूप और गुणों की चर्चा दूर-दूर तक फैली थी । राजा ने उसके विवाह के लिए योग्य वर चुनने के लिए एक स्वयंवर करने का फैसला किया । पांडव भी स्वयंवर का समाचार सुनकर माता कुंती के साथ पांचाल पहुँचे । स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए देश-विदेश से राजा आये थे । कौरव भी आये थे । पांडव ब्राह्मणों के वेश में आये थे और पीछे जाकर बैठ गए ।

(1) ब्राह्मण के वेश में कौन आये थे ?

(I) कौरव (2) पांडव (3) राजा (4) ब्राह्मण

(2) द्रौपदी किसकी पुत्री थी ?

(क) कुंती की (ख) पांचाल की (ग) द्रुपद की (घ) पिता की

(3) कुंती किसकी माता थी ?

(क) पांडवों की (ख) कौरवों की (ग) द्रौपदी की (घ) द्रुपद की

(4) 'वर' का स्त्रीलिंग क्या है ?

(क) बहु (ख) वधू (ग) वरी (घ) वरण

(5) 'गुण' का विलोम शब्द क्या है ?

(क) दोष (ख) बुराई (ग) अच्छाई (घ) गुणा

खंड (ख) साहित्य

प्र.3. सही उत्तर का चयन करिए-

1. गोनू झा के परिवार का पेशा क्या था ?

खेती [] पशुपालन [] कथा वचन []

2. इसब और अमरत कौन थे ?

भाई [] दोस्त [] रिश्तेदार []

3. अदल-बदल पाठ में कौन से त्योहार की बात हो रही है ?

ईद [] रक्षाबंधन [] होली [] दीपावली []

प्र. 4. प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए-

(क) अमरत और इसब के माता- पिता का काम धंधा क्या था ?

(ख) गोनू झा कौन थे ?

(ग) इसब के अब्बा का क्या नाम था ?

प्र. 5. लघुत्तरात्मक प्रश्न-

1. (ग) अमरत इसब के साथ क्यों नहीं लड़ना चाहता था ?

2. इसब अमरत और कालिया की लड़ाई के बीच क्यों कूद पड़ा ?

3. गाय खरीदने के बाद गोनू झा को क्या चिंता सताने लगी ?

प्र. 6. विस्तारात्मक प्रश्न

(क) गोनू झा ने चोर-चोर चिल्लाकर गाँववालों को क्यों एकत्र किया ?

अथवा

तुम्हारे विचार में गोनू झा के चले जाने के बाद गाँव वालों ने क्या किया होगा ?

खंड (स) रचनात्मक लेखन -

प्र. 7. 'नया संसार' अथवा 'मेरा मित्र' पर एक अनुच्छेद लिखिए ।

प्र. 8. नीचे लिखे शब्दों में से कोई दो वाक्य बनाइये -

1. सुहानी 2. खुशहाली 3. शरारत 4. नरेश

खंड (द) व्याकरण

प्र. 9 उपयुक्त शब्द से खाली - स्थान भरो-

1. संस्कृत भाषा की लिपि है ।

[गुरुमुखी / देवनागरी]

2. व्याकरण भाषा का रूप सिखाता है ।

[शुद्ध / ज्ञान]

3. भाषा के रूप हैं ।

[दो / तीन]

प्र. 10. विशेषण- विशेष्य के जोड़े बना कर लिखो -

सुन्दर रेख

सिंदूरी भोजन

भला उपवन

बासी इन्सान

प्र. 11. शब्दों को पहचान कर सही या गलत का निशान लगाओ-

1. हँसना = क्रिया / विशेषण

2. मैं = क्रिया विशेषण / सर्वनाम

3. मिठास = संज्ञा / क्रिया

प्र. 12. इन शब्दों से चार - चार शब्दों के परिवार बनाइये-

1. डर -

.....

2. रूप -

.....